

শিশুদেরে জন্ম বাইবলে  
উপহার

किसान आउर  
बीआ



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: M. Maillot; Lazarus  
Alastair Paterson

অভিযোজিত: E. Frischbutter; Sarah S.

অনুবাদিত: Sonu Rahi

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2024 Bible for Children, Inc.

লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,  
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।



एक दिन यीशु तालाव के किनारे  
उपदेश दे रहलथिन हल। ढेर मनी  
आदमी उनखा बात सुने लागी  
हूँआ जमा हलन।

भीड़ बड़ी जादे बढ़ते गेल।  
अब यीशु का करथिन?




बगले में एगो नाव के देखके, यीशु नाव  
पर चहड़ गेलथिन। अब यीशु लोगवन के  
देख सकऽ हलथिन आउर उ उनखनी  
के देख आउर सुन सकल  
हलथिन।



यीशु द्रिस्तान्तो के बताबे ला सुरु कैलथिन  
सधारण चीज के बारे में खिस्सा बतैलथिन,  
जोन लोगवन के परमेश्वर के बारे में  
सिखाबऽ हलथिन।



एगो किसान अपन खेत में बीआ के बुनलक।  
“यीशु के इ सब खिस्सा तस्वीर के जगह पर  
वचन के फोटो जइसन हल।



लोगवन किसान के काम करे के फोटो के  
बारे में सोच सकऽ हल-उ एकरा केतना  
बार देख लेलन हल।





कुछ बुनल बीआ रस्ता के किनारे  
पर गिरल। ओह! चिरैअन  
उड़ते-उड़ते जल्दी से निचे उतर  
के आउर खा लेलक।





कुछ बीआ पथराइल जमीन पर गिरल।  
उ जल्दी ही पतरा छोटा पौधा बन  
गेल। बाकि सूरज के रौदा ओकरा  
जल्दिये सुखा देलक काहे  
कि ओकर जड़ी बढ़िया  
से मट्टी में न हल।




दूसरा बीआ कंटबन में उगला।  
ऊसब भी फलदायक न होला। कंटबन उ  
छोटका पौधबन के चारो ओर से घेरले  
हल आउर ओकरा जरूरत के  
रौदा आउर पानी  
न मिलऽ हल।



अब बाकि बचल बीआ अच्छा जमीन पर  
गिरल। समय बितला पर मरल अनाज एगो  
अच्छा पौधा बन गेल। किसान बड़ी  
खुश होल होत।




कहानी के अंतिम में, चेला यीशु भीर गेलन। ओंखनी पूछलन,  
“अपने द्रिस्टांत में काहे सिखाबऽ हऽ?”



यीशु कहलन जौन सब परमेश्वर से सच्चो में प्यार करऽ हथिन  
उनखा हकीकत में ई द्रिस्टांत परमेश्वर के बारे में जादे समझे  
लागी मदत करऽ हे।



बाकि जोन परमेश्वर से प्यार न करऽ हथिन  
उनखा द्रिस्टांत के न समझ सकलन हे।



यीशु द्रिस्टांत में समझईथिन। उ कहलथिन  
कि बीआ परमेश्वर के वचन हे। रस्ता पर गिरल  
बीआ ओकरा जइसन हे जोन सुनऽ हे बाकि


परमेश्वर के वचन के  
समझ न सकऽ हे।  
परमेश्वर जे कुछ

बतैलथिन  
हे ओकरा  
सैतान  
भुला दे हे।



कुछ लोगबन जल्दी से परमेश्वर के वचन के  
कबूल करऽ हथिन। उ पत्थर वाला जमीन पर गिरल  
बीआ जइसन हे। बाकि जैसही कोई ओकरा मजाक उड़ैतन  
चाहे परमेश्वर से प्यार करे के चलते  
ओकरा लागी कोई दिक्कत करऽहे, त  
ऐसन एगो दुःख के

बात होबऽ हे।





इ ओही सब हे जोन सुरु में खुसी से यीशु के अनुसार  
करऽ हथिन। बाकि फिन ऊ परमेश्वर के वचन के माने ला छोड़  
दे हथिन। उ परमेश्वर के अनुसरन के दाम चुकाबल न  
चाहऽ हथिन। केतना दुःख के बात हे कि उ परमेश्वर  
के खुश करे के बदले में अपन दोसवन के खुश करऽ हथिन।



द्विस्टांत में कंटबन के  
मतलब सांसारिक

फिकिर आउर पैसा के  
लोभ के जइसन हे जौन  
कुछ लोगवन के जीवन के  
पकड़ के रखऽ हे। उ अपन  
जीवन में जादे पैसा आउर  
दूसरा चीज के पाबे लागी  
एतना ब्यस्त हो जा  
हथन कि परमेश्वर के  
अपन जीवन से अलगे  
कर ले हथन।



बाकि अच्छा जमीन पर गिरल बीआ जोन ढेरमनी  
फल लैलक उ परमेश्वर के वचन जइसन हे जोन दिल में  
घुंस के लोगबन के जीवन के बदलऽ दे हे। इ सब  
परमेश्वर के आदर आउर सेवा करऽ हथिन।



भीड़ हूँआ से जाए ला न चाहऽ हल। ढेरमानी परमेश्वर के अनुसरन करेला आउर उनखा खुश करेला चाहऽ हलन। यीशु के द्रिस्टांत ओंखनी के परमेश्वर के समझे आउर उनखर आज्ञा माने में मदत कैलन।



# কিসান আউর বীআ

ঈশ্বরেরে বাক্য, বাইবেলে থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

মতী 13

“তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দয়ে।”

গীতসংহতি 119:130



দ্য এন্ড



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে  
যনি আমাদের তরৈকিরছেন এবং যনি চান আপনিতাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছি, যাকে তনি পাপ বলেছেন। পাপরে  
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তনিতাঁর একমাত্র  
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে  
পাঠয়িছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয় স্বর্গে চল গেলেন! আপনি যদি  
যীশুতে বশ্বিাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্షমা চান, তনিতা  
করবনে! তনি আসবনে এবং এখন আপনার মধ্যবে বাস করবনে, এবং আপনি  
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবনে।

যদি আপনি বশ্বিাস করনে যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:  
প্রয়ি যীশু, আমি বশ্বিাস করি যে আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম  
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেন।  
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্షমা করুন, যাতো আমি  
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে  
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে  
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16

